

इसे वेबसाइट [www.govtprint.nic.in](http://www.govtprint.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 10, शक 1945

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर

प्रधान कार्यालय : “वित्त भवन” मुम्बई—आगरा मार्ग, इन्दौर—452001

#### सूचना

सूचना दी जाती है कि मध्य प्रदेश वित्त निगम के अंशधारियों की अङ्गठीवाँ वार्षिक साधारण बैठक मंगलवार दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 को दोपहर 4.00 बजे “वित्त भवन”, मुम्बई—आगरा मार्ग, इन्दौर स्थित निगम के प्रधान कार्यालय में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादन किया जायेगा :—

- 01— 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के तुलनपत्र तथा लाभ—हानि लेखों के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा वर्ष के दौरान निगम के कार्यों के संबंध में संचालक मण्डल की रिपोर्ट का वाचन और उस पर विचार।
- 02— वित्तीय वर्ष 2023—24 हेतु सांविधिक अंकेक्षकों की नियुक्ति पर विचार।
- 03— अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय जो बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

निगम की अंशबही दिनांक 29 नवम्बर, 2023 से 19 दिसम्बर, 2023 तक (दोनों दिन मिलाकर) बन्द रहेगी।

**नोट :**

- (क) अढ़सठवीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित होने हेतु प्रस्तावों की प्रमाणित प्रतिलिपियों (उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित जिसमें प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था) जिसमें कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हों, निगम कार्यालय में बैठक के 4 दिन पूर्व (सम्पूर्ण दिन) अर्थात् 13 दिसम्बर, 2023 तक पहुँच जाना चाहिए।
- (ख) प्रतिपत्र (प्रॉक्सी) निगम के कार्यालय में बैठक के 7 दिन (सम्पूर्ण दिन) पूर्व अर्थात् 8 दिसम्बर, 2023 तक पहुँच जाना चाहिए।
- (ग) अंशधारियों की सूची एक रुपया प्रति की दर से निगम कार्यालय में बैठक के तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध हो सकेगी।

Notice is hereby given that the 68<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Shareholders of the Madhya Pradesh Financial Corporation will be held at the Head Office of the Corporation, "Finance House", Mumbai - Agra Road, Indore, on **Tuesday the 19<sup>th</sup> December, 2023** at **4.00 pm** to transact the following business :-

01. To read and consider the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Corporation for the year which ended on **31<sup>st</sup> March, 2023** (together with the Report of the Auditors thereon) and the Report of the Board of Directors of the Corporation on its working during the year.
02. To consider appointment of Statutory Auditors for the Financial Year **2023-24**.
03. Any other business which may be placed before the meeting with the permission of the Chairman.

The Share Register of the Corporation will remain close from **29<sup>th</sup> November, 2023** to **19<sup>th</sup> December, 2023** (both days inclusive).

**NOTES**

- (a) Certified copies (certified to be true copies by the Chairman of the meeting in which the resolution is passed) of the Resolutions appointing duly authorized representatives by Companies to attend the 68<sup>th</sup> Annual General Meeting should reach the office of the Corporation not later than four clear days i.e. **13<sup>th</sup> December, 2023**.
- (b) Proxies should reach the office of the Corporation not later than seven clear days before the date fixed for the meeting i.e. **8<sup>th</sup> December, 2023**.

- (c) Lists of Shareholders are available at the office of the Corporation for purchase by Shareholders at a price of Rs. 1/- per copy, three weeks before the date fixed for the meeting.

20-11-2023

"Finance House"  
Mumbai Agra Road,  
INDORE – 452 001

संचालक मण्डल के आज्ञानुसार,  
लोकेश कुमार जाटव, प्रबन्ध संचालक.

(G-2292)

#### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, BOMMAREDDY LOHITEESH REDDY पिता BOMMAREDDY SRIDHAR REDDY निवासी— म.नं. १बी/४३, हास्पिटल रोड, जमुना कॉलरी, हरद, अनुपपुर. मेरा नाम जन्म प्रमाण—पत्र व आधार कार्ड के अनुसार BOMMAREDDY LOHITEESH REDDY पिता BOMMAREDDY SRIDHAR REDDY एवं माता BOMMAREDDY LALITHA है, जबकि शैक्षणिक रिकॉर्ड में B. LOHITEESH REDDY पिता B. SRIDHAR REDDY एवं माता B. LALITHA अंकित है, इसलिए शैक्षणिक रिकॉर्ड में नाम परिवर्तित कर BOMMAREDDY LOHITEESH REDDY पिता BOMMAREDDY SRIDHAR REDDY एवं माता BOMMAREDDY LALITHA दर्ज किया जावे.

आवेदक,

**(BOMMAREDDY LOHITEESH REDDY)**

(G-2293)

#### नाम परिवर्तन

मैं, नरेन्द्र टोंके (पाटीदार) पिता मोहनलाल, निवासी—चंदुखेड़ी, पोस्ट नलवा, तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.) मेरा पूर्व नाम अनिल पिता मोहनलाल उसका परित्याग करता हूँ और उसके स्थान पर प्रकाशन उपरांत नाम नरेन्द्र टोंके (पाटीदार) पिता मोहनलाल को अंगीकार करता हूँ, अनिता पिता मोहनलाल एवं नरेन्द्र टोंके (पाटीदार) पिता मोहनलाल एक ही व्यक्ति हैं. अतः मुझे नरेन्द्र टोंके (पाटीदार) पिता मोहनलाल नाम से जाना जाए एवं सरकारी, अर्द्धसरकारी, दस्तावेजों आदि में लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(अनिल पिता मोहनलाल)

(नरेन्द्र टोंके (पाटीदार) पिता मोहनलाल)

(G-2294)

#### नाम परिवर्तन

मैं, पुष्कर राज टोंके (पाटीदार) पिता स्व. मिश्रीलाल, निवासी—ग्राम पंचायती, तहसील सांवेर, इन्दौर (म.प्र.) मेरा पूर्व नाम भगवान पिता मिश्रीलाल उसका परित्याग करता हूँ और उसके स्थान पर प्रकाशन उपरांत नया नाम पुष्कर राज टोंके (पाटीदार) पिता स्व. मिश्रीलाल को अंगीकार करता हूँ, भगवान पिता मिश्रीलाल एवं पुष्कर राज टोंके (पाटीदार) पिता स्व. मिश्रीलाल एक ही व्यक्ति हैं. अतः मुझे पुष्कर राज टोंके (पाटीदार) पिता स्व. मिश्रीलाल नाम से जाना जाए एवं सरकारी, अर्द्धसरकारी, दस्तावेजों आदि में लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(भगवान पिता मिश्रीलाल)

(पुष्कर राज टोंके (पाटीदार) पिता स्व. मिश्रीलाल)

(G-2295)

### नाम परिवर्तन

मैं, अनिल टोंके (पाटीदार) पिता स्व. मिश्रीलाल, निवासी—99, ग्राम पंचडेरिया, अलवासा, तहसील सांवर, जिला इन्दौर (म.प्र.) मेरा पूर्व नाम संतोष पिता मिश्रीलाल के उपयोग को पूर्णतः परित्याग करता हूँ और उसके स्थान पर प्रकाशन उपरांत नया नाम अनिल टोंके (पाटीदार) पिता स्व. मिश्रीलाल को अंगीकार करता हूँ, संतोष पिता मिश्रीलाल एवं अनिल टोंके (पाटीदार) पिता स्व. मिश्रीलाल एक ही व्यक्ति हैं। अतः मुझे अनिल टोंके (पाटीदार) पिता स्व. मिश्रीलाल नाम से जाना जाए एवं सरकारी, अर्द्धसरकारी दस्तावेजों आदि में लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(संतोष पिता मिश्रीलाल)

(अनिल टोंके (पाटीदार) पिता स्व. मिश्रीलाल)

(G-2296)

### नाम परिवर्तन

मैं, सचिन टोंके (पाटीदार) पिता मोहनलाल, निवासी—4, नई आबादी, चंदुखेड़ी, पोस्ट नलवा, तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरा पूर्व नाम राहुल पिता मोहनलाल के उपयोग को पूर्णतः परित्याग करता हूँ और उसके स्थान पर प्रकाशन उपरांत नया नाम सचिन टोंके (पाटीदार) पिता मोहनलाल को अंगीकार करता हूँ, राहुल पिता मोहनलाल एवं सचिन टोंके (पाटीदार) पिता मोहनलाल एक ही व्यक्ति हैं। अतः मुझे सचिन टोंके (पाटीदार) पिता मोहनलाल नाम से जाना जाए एवं सरकारी, अर्द्धसरकारी दस्तावेजों आदि में लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(राहुल पिता मोहनलाल)

(सचिन टोंके (पाटीदार) पिता मोहनलाल)

(G-2297)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे नेवी के डोक्यूमेंट में मेरे नाम की स्पेलिंग OMPRAKESH दर्ज हो गयी है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड आदि में मेरे नाम की स्पेलिंग OMPRAKASH दर्ज है, जो कि सही है। अतः भविष्य में मुझे मेरे नाम की सही स्पेलिंग OMPRAKASH से ही जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा व उपयोग किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(OMPRAKESH)

(OMPRAKASH)

S/o Babu Singh,

निवासी—पुष्कर कॉलोनी, भिण्ड रोड,

ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2298)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री श्रेया सिंह के शैक्षणिक दस्तावेज में मेरे नाम बाल गोविंद सिंह (BAL GOVIND SINGH) दर्ज है, जो कि त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है। मेरा सही नाम विजय प्रताप सिंह (VIJAY PRATAP SINGH) है। अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विजय प्रताप सिंह (VIJAY PRATAP SINGH) के नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(बाल गोविंद सिंह)

(विजय प्रताप सिंह)

(BAL GOVIND SINGH)

(VIJAY PRATAP SINGH)

पिता—भुवनेश्वरी प्रताप सिंह,

पता—जे.—19, ई—6, अरेरा कॉलोनी,

हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(G-2299)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत भागीदारी फर्म एम.वी. इन्टरप्राइजेस, सी-1, खण्डेलवाल कम्पाउंड, मामाजी तोलकांटे के पास, पालदा, इन्दौर-452015 पते पर स्थित होकर इस फर्म में दो भागीदार सुशील व्यास एवं श्रीमती पल्लवी मंडोवरा थी। श्रीमती पल्लवी मंडोवरा दिनांक 31-08-2020 को इस फर्म से रिटायर्ड (निवृत्त) हो चुकी हैं एवं तृप्ता व्यास दिनांक 31-08-2020 से नई भागीदारी के रूप में इस फर्म से जुड़ चुकी हैं। निवृत्ति दिनांक से पल्लवी मंडोवरा का फर्म एम.वी. इन्टरप्राइजेस से कोई भी संबंध नहीं होकर उक्त दिनांक से फर्म की किसी भी लेनदारी-देनदारी से पल्लवी मंडोवरा का कोई संबंध शेष नहीं रहा है। सो सूचित होवे।

एम.वी. इन्टरप्राइजेस,  
सुशील व्यास

(G-2300)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मेसर्स मंगल मूर्ति मिनरल्स, 99, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश-450331, पंजीयन क्रमांक 03/27/01/00050/12 साझेदारी फर्म में श्री वासुदेव अग्रवाल पिता श्री संजय कुमार अग्रवाल, निवासी-221/2, श्री व्यंकटेश विला, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश को दिनांक 01-04-2023 से समस्त भागीदारों की सहमती से नये भागीदार के रूप में समिलित किया गया है। इसके साथ ही सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मेसर्स मंगल मूर्ति मिनरल्स की साझेदारी में वर्तमान में अब 1. श्री मोहित अग्रवाल पिता श्री संजय कुमार अग्रवाल, 2. श्री राजीव तिरपुडे पिता श्री ताराचंदजी तिरपुडे तथा 3. श्री वासुदेव अग्रवाल पिता श्री संजय कुमार अग्रवाल फर्म के वर्तमान भागीदार रहेंगे। सर्वजन व आमजन सूचित हो।

वास्ते : मेसर्स मंगल मूर्ति मिनरल्स,

मोहित अग्रवाल  
(पार्टनर)

पता-99, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश-450331.

(G-2301)

### नाम परिवर्तन

मैं, मनस्वी ओडिया (MANASVI ODIYA) पुत्री अरुण कुमार ओडिया, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पूर्व का नाम महक ओडिया (MAHAK ODIYA) था, जो मेरी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मुझे मनस्वी ओडिया पुत्री अरुण कुमार ओडिया के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है। अतः मेरा नाम सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में महक ओडिया के स्थान पर मनस्वी ओडिया लिखा एवं पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम  
(महक ओडिया)

नया नाम  
(मनस्वी ओडिया)  
पुत्री अरुण कुमार ओडिया,  
पता-11/7, थाटीपुर कॉलोनी, वॉटर टैंक के पास,  
आर. के. पुरी, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2302)

### नाम परिवर्तन

मैं, लखन पोरसिया पुत्र लालाराम पोरसिया सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का पूर्व नाम लेहान पोरसिया (LEHAN PORSIYA) था, जो उसके शासकीय/अशासकीय, शैक्षणिक प्रमाण—पत्र, आदि अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान में मेरे पुत्र का नाम लुकेश पोरसिया (LUKESH PORSIYA) हो गया है एवं भविष्य में भी मेरे पुत्र को लुकेश पोरसिया के नाम से सभी दस्तावेजों में जाना—पहचाना एवं पुकारा व दर्ज किया जावे।

सूचनाकर्ता,  
लखन पोरसिया,  
86, आस्था पैलेस, शितला माता मंदिर के पास,  
इन्दौर (म.प्र.).

(G-2303)

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती विद्या गोयल पत्नी श्री सुशील कुमार गोयल, निवासी—164, लक्ष्य होम्स, अविनाश नगर, बरखेड़ा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) शादी के पूर्व मेरा नाम बीना गोयल पुत्री श्री रामजस राय धानुका था एवं शादी के बाद मेरा नाम विद्या गोयल पत्नी श्री सुशील कुमार गोयल हो गया है एवं अन्य दस्तावेजों में भी मेरा नाम विद्या गोयल है, लेकिन आधार कार्ड में मेरा नाम बीना गोयल है। मेरा नाम बीना गोयल के स्थान पर विद्या गोयल नाम परिवर्तित कर मुझे विद्या गोयल नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम  
(बीना गोयल)  
पुत्री—श्री रामजस राय धानुका

नया नाम  
(विद्या गोयल)  
पत्नी—श्री सुशील कुमार गोयल.

(G-2304)

### नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम अमित राजपूत पिता मथुरा प्रसाद राजपूत था। अब मैंने अपना नाम बदलकर रामदास लोधी पिता श्री मथुरा प्रसाद लोधी (RAMDAS LODHI S/o MATHURA PRASAD LODHI) हो गया है। अतः मेरे दस्तावेज इसी नाम से हैं। अतः भविष्य में मुझे रामदास लोधी एवं मथुराप्रसाद लोधी के नाम से जाना—पहचाना जावे।

(G-2305)

भवदीय,  
रामदास लोधी पिता मथुरा प्रसाद लोधी,  
पता—21, गंगाबाग कॉलोनी, बाणगंगा,  
जिला इन्दौर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम नितिन पिता सुरेशचन्द्र अहिर था। अब मैंने नाम परिवर्तन कर शिवाय अहिर पिता सुरेशचन्द्र अहिर कर लिया है। मेरे समस्त शासकीय दस्तावेज में भी मेरा नाम नितिन अहिर दर्ज है। भविष्य में अब मुझे शिवाय अहिर पिता सुरेशचन्द्र अहिर Shivaay Ahir S/o Sureshchand Ahir के नाम से जाना—पहचाना जावे।

(G-2306)

पुराना नाम  
(नितिन अहिर)

नया नाम  
(शिवाय अहिर)  
पिता—सुरेशचन्द्र अहिर,  
पता—107, शांति नगर, महू गांव,  
तह. महू, जिला इन्दौर (म.प्र.).

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स नीलकंठ डेवलपर्स (NEELKANTH DEVELOPERS) पता-70, कागदीपुरा, बाल विनय मंदिर स्कूल के सामने, जिला इन्दौर (म.प्र.), पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0330/23, दिनांक 30-10-2023, जिसमें प्रारंभिक भागीदार श्री नीलेश उपाध्याय और श्री गिरधारिलाल गुप्ता भागीदार थे। इसके पश्चात् फर्म में श्री पुनीत जैन भागीदार के रूप में दिनांक 26-08-2021 को विधिवत् रूप से समिलित हुए एवं दिनांक 27-08-2021 को भागीदार श्री गिरधारिलाल गुप्ता स्वेच्छा से सेवानिवृत्त (Retire) हो गये। इसके पश्चात् फर्म में श्री हरजीत सिंह भुल्लर एवं श्री योगेश पाटिल भागीदार के रूप में दिनांक 10-06-2022 को विधिवत् रूप से समिलित हुए एवं दिनांक 13-06-2022 को भागीदार श्री नीलेश उपाध्याय एवं श्री पुनीत जैन अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त (Retire) हो गये एवं फर्म के पते में भी परिवर्तन किया गया है। फर्म से सेवनीवर्ती पश्चात् पुराने समस्त भागीदारों ने अपनी समस्त पूँजी एवं लाभ प्राप्त कर लिया है तथा आज दिनांक को फर्म से कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है। वर्तमान में फर्म में दो भागीदार श्री हरजीत सिंह भुल्लर एवं श्री योगेश पाटिल शेष हैं, जो की भागीदार के रूप में कार्य करते रहेंगे एवं फर्म का वर्तमान पता-101, शिवओमम ब्लॉक D, 578, एम.जी. रोड, जिला इन्दौर (म.प्र.) है। आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो।

मेसर्स नीलकंठ डेवलपर्स,  
हरजीत सिंह भुल्लर,  
(भागीदार).

(G-2307)

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती वीना वर्मा पत्नी डॉ. श्री वीरभान वर्मा, पता-हनुमान चौराहा, जनकगंज, ग्वालियर (म.प्र.) मेरा विवाह डॉ. वीरभान वर्मा के साथ हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ है एवं विवाह के पूर्व मेरा नाम ऊषा अरोरा पुत्री स्व. श्री सोमनाथ अरोरा, पता-ए-59, एम.आई.जी. कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.) था। विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती वीना वर्मा पत्नी डॉ. श्री वीरभान वर्मा, पता-हनुमान चौराहा, जनकगंज, ग्वालियर (म.प्र.) हो गया है। अतः अब मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(ऊषा अरोरा)	(वीना वर्मा)
पुत्री-स्व. श्री सोमनाथ अरोरा	पत्नी-डॉ. वीरभान वर्मा।

(G-2308)

### नाम परिवर्तन

मैं, मनोज कुमार आ. कालीराम, निवासी-ग्राम खमरिया गंज, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन। मेरे आधार कार्ड छोड़कर सभी दस्तावेजों में नाम मनोज कुमार है पर आधार कार्ड में गलती से मेरा नाम ओमप्रकाश हो गया है, जो कि मेरा नाम गलत है। मेरा सही नाम मनोज कुमार है। अब मुझे इसी नाम से लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

भवदीय,  
मनोज कुमार,

(G-2309)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह पूर्व नाम ज्योति (Jyoti) पुत्री दीपक सिंह था, जोकि विवाह पश्चात् मेरा नाम ज्योति सिंह राजपुत (Jyoti Singh Rajput) पत्नी सुमित सिंह राजपुत हो गया है। अतः अब मुझे मेरे सही नाम ज्योति सिंह राजपुत (Jyoti Singh Rajput) के नाम से जाना—पहचाना जावे एवं मेरे सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में लिखा और पढ़ा जाए।

पुराना नाम

(ज्योति)

(Jyoti)

पुत्री—दीपक सिंह

नया नाम

(ज्योति सिंह राजपुत)

(Jyoti Singh Rajput)

पत्नी—सुमित सिंह राजपुत,

निवासी—ब्लॉक नंबर 01, फ्लैट नंबर 202,  
रीगल नेस्ट, अवधपुरी, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।

(G-2310)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुमित सिंह राजपुत पुत्र रणधीर सिंह राजपुत अपने पुत्र का नाम सम्राट सिंह चौहान (Samrat Singh Chouhan) के स्थान पर सम्राट सिंह राजपुत (Samrat Singh Rajput) कर लिया है। अतः अब मेरे पुत्र को सम्राट सिंह राजपुत (Samrat Singh Rajput) पुत्र सुमित सिंह राजपुत के नाम से जाना—पहचाना जावे एवं सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में लिखा और पढ़ा जाए।

पुराना नाम

(सम्राट सिंह चौहान)

नया नाम

(सम्राट सिंह राजपुत)

(Samrat Singh Rajput)

पुत्र—सुमित सिंह राजपुत,

निवासी—ब्लॉक नंबर 01, फ्लैट नंबर 202,  
रीगल नेस्ट, अवधपुरी, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।

(G-2311)

### PUBLIC NOTICE

#### NOTIFICATION U/s 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

It is published for general information that, MR. HARSHVARDHAN SINGH CHOUHAN has Taken Voluntary Retirement from Partnership, on 01-10-2023, now He is are no longer associated with the partnership firm “M/s SHIVAY MINERALS” AN-37, EKTA NAGAR NEPANAGAR, BURAHANPUR (M.P.) PIN No. 450331, Firm Registration No. 03/47/00/0112/16 dt. 18-10-2016.

For : “M/s SHIVAY MINERALS”

**(SANKET SINGH CHOUHAN)**

(Partner).

(G-2312)

**PUBLIC NOTICE****NOTIFICATION U/s 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

It is published for general information that, MR. HARSHWARDHAN SINGH CHOUHAN and MR. RAHUL SINGH HAZARI S/o MR. RAJENDRA SINGH HAZARI, has Taken Voluntary Retirement from Partnership, on 01-10-2023, now They are no longer associated with the partnership firm “M/s SHWETLABH MINES” D-4 Jaisurya Mohan Nagar, Near Sanjay Nagar, BURAHANPUR (M.P.) PIN No. 450331 AND MR. SHUBHAM PRATAP SINGH has joined as a new partner on 01-10-2023 in the firm “M/s SHWETLABH MINES” D-4 Jaisurya Mohan Nagar, Near Sanjay Nagar, BURAHANPUR (M.P.) PIN No. 450331, Firm Registration No. 03/47/02/0371/15 dt. 20-02-2015.

For : “M/s SHWETLABH MINES”  
**(SANKET SINGH CHOUHAN)**  
 (Partner).

(G-2313)

**PUBLIC NOTICE****NOTIFICATION U/s 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

It is published for general information that, MR. HARSHWARDHAN SINGH CHOUHAN has Taken Voluntary Retirement from Partnership, on 01-10-2023, now He is are no longer associated with the partnership firm “M/s SHIVTAPO MINERALS”, 3 /4 /K, Sardar Bhukute Marg, BURAHANPUR (M.P.) PIN No. 450331, Firm Registration No. 03/47/02/0216/17, dt. 24-11-2017.

For : “M/s SHIVTAPO MINERALS”  
**(SUJAY SINGH CHOUHAN)**  
 (Partner).

(G-2314)

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स शिव डेवेलपर्स मुख्यालय, वर्तमान मुख्यालय दुकान नं. 31, प. शंभू दयाल दीक्षित मार्केट, नगरपालिका परिषद, टीकमगढ़ (म.प्र.) में से सौरभ बुखारिया तनय श्री उत्तम चन्द्र जैन एवं अशोक कुमार अग्रवार तनय श्री मोति लाल अग्रवाल सेवामुक्त हो गये हैं। इनके स्थान पर स्वतंत्र गंगेले तनय श्री अशोक कुमार, गौरव तनय श्री दिनेश कुमार, अमृता नायक पत्नी श्री प्रवीण नायक फर्म में साझेदार हो गये हैं एवं फर्म का मुख्यालय दुकान नं. 31, प. शंभू दयाल दीक्षित मार्केट, नगरपालिका परिषद, टीकमगढ़ (म.प्र.) कर दिया गया है। उपरोक्त सभी परिवर्तन दिनांक 10 अक्टूबर 2022 से लागू माने जायेंगे।

मेसर्स शिव डेवेलपर्स,  
**(अभिनव चौबे)**  
 (भागीदार).

(G-2315)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व के शैक्षणिक तथा अन्य दस्तावेजों में नाम कुमारी मुन्नीदेवी चंदेल पिता मथुरा सिंह चंदेल अंकित है। मेरा नाम परिवर्तित होकर श्रीमती मीना सिंह चौहान हो गया है। अब मैं, श्रीमती मीना सिंह चौहान पत्नी स्व. श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, निवासी—बी—10 / 5, महाकाल वाणिज्य, नानाखेड़ा, उज्जैन (म.प्र.) के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी एवं भविष्य में मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों आदि में परिवर्तित नाम श्रीमती मीना सिंह चौहान (Smt. Meena Singh Chouhan) लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(कुमारी मुन्नीदेवी चंदेल)

पुत्री—श्री मथुरा सिंह चंदेल

नया नाम

(मीना सिंह चौहान)

पत्नी—स्व. श्री प्रेमपाल सिंह चौहान।

(G-2316)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पवित्रा बाई पत्नी माखन सिंह (PAVITRA BAI W/o MAKHAN SINGH), निवासी—595, कालापीपल ग्राम, जिला शाजापुर (म.प्र.)।

मेरा पुराना नाम संगीता चन्द्रवंशी था, जो कि मैं, अब अपने नये नाम पवित्रा बाई पत्नी माखन सिंह (PAVITRA BAI W/o MAKHAN SINGH) के नाम से जानी जाऊंगी। अब मेरा नाम भविष्य में सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में पवित्रा बाई पत्नी माखन सिंह (PAVITRA BAI W/o MAKHAN SINGH) लिखा एवं सम्बोधित किया जावेगा।

पुराना नाम

(संगीता चन्द्रवंशी)

(Sangeeta Chandravanshi)

पत्नी—माखन सिंह

नया नाम

(पवित्रा बाई)

पत्नी—माखन सिंह

(PAVITRA BAI W/o MAKHAN SINGH).

(G-2317)

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, उपखण्ड—जावद, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0001—बी—113(1)—23—24

जावद, दिनांक 7 जुलाई 2023

प्रारूप क्रमांक—4

[ देखें नियम 5(1) ]

### सूचना—पत्र

[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा ]

आवेदक मुख्य न्यासी श्रीमती अयोध्याबाई पाटीदार पति श्री मोहनलाल पाटीदार, अध्यक्ष, आयुष्मान गौ आश्रम, द्रस्ट, ग्राम दड़ौली, जिला नीमच, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन—पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना—पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर प्रकरण संस्थित किया जाकर आगामी पेशी तारीख 31 जुलाई 2023 पर मेरे न्यायालय में विचार लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

### अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता . . . . . आयुष्मान गौ आश्रम, ट्रस्ट, ग्राम दड़ौली, जिला नीमच, मध्यप्रदेश  
सम्पत्ति का विवरण :

चल संपत्ति	5100,/— रुपये नगद
अचल संपत्ति	नायब तहसीलदार, तहसील जावद के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम गुड़ाहार स्थित भूमि सर्वे नं. 327 / 2 / 1, रकबा 2.1291 है। व्यवसायिक भूमि राजस्व रिकार्ड में मोहनलाल पिता हजारीलाल, अयोध्याबाई पति मोहनलाल जाति पाटीदार के नाम से दर्ज है।

(G-2318)

शिवानी गर्ग, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश**  
प्र.क्र. 03—बी—113—2023—24 विदिशा, दिनांक 3 नवम्बर, 2023

### प्रारूप-4

[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिये]

आवेदक श्री संजीव पुत्र श्री हजारीलाल जैन, निवासी—स्वर्णकार कालोनी, विदिशा, अध्यक्ष द्वारा विनम्रवाणी चैरिटेबल ट्रस्ट, विदिशा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 4—12—2023 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियाँ करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है।

अतः, मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 4—12—2023 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई भी न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता . . . विनम्रवाणी चैरिटेबल ट्रस्ट, एल.आई.जी.—128, इंद्रा काम्पलेक्स, विदिशा
2. चल सम्पत्ति . . . निरंक
3. अचल सम्पत्ति . . . निरंक.

(G-2319)

शितिज शर्मा, पंजीयक.

## अन्य सूचनाएँ

### कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, गुना, मध्यप्रदेश

क्र. परिसमापन—2023—889

गुना, दिनांक 21 अगस्त, 2023

कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापन—2017—1900, दिनांक 18—09—2017 के द्वारा फौजी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., राघौगढ़, जिला गुना (पंजीयन क्रमांक 852, दिनांक 06—08—1996) के निष्क्रिय होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री रायसिंह भील, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया। परिसमापक की अध्यक्षता में फौजी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., राघौगढ़, जिला गुना की आमसभा दिनांक 19—01—2023 में पारित निर्णय अनुसार संस्था सदस्यों के द्वारा संस्था को पुर्नजीवित करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है। संस्था सदस्यों के द्वारा उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था हित में कार्य करने की सहमति प्रस्तुत की गई है। उक्त के संबंध में परिसमापक श्री रायसिंह भील, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण करने पर पाया गया कि, संस्था सदस्यों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना एवं उसे पुर्नजीवित करना उचित है।

अतः, मैं, मुकेश कुमार जैन, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, गुना सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ—5—1 99—15—1 सी, दिनांक 26—7—99 एवं मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम, 1960 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फौजी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., राघौगढ़, जिला गुना का परिसमापन आदेश क्रमांक परिसमापन—2017—1900, दिनांक 18—09—2017 को नियुक्त करते हुए संस्था को पुर्नजीवित करता हूँ। संस्था की आमसभा द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार संस्था के कार्य संचालन हेतु नवीन निर्वाचन होने तक निम्नांकित प्रबंधकारिणी कमेटी तीन माह के लिए नामांकित करता हूँ—

1.	श्रीमती मिथ्लेश पति स्व. श्री मेघराज फौजी	अध्यक्ष
2.	श्री गिरराज सोनी पिता श्री रतनलाल सोनी	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती लक्ष्मीदेवी पति श्री गिराज सोनी	संचालक
4.	श्रीमती रुकसाना बानो पति श्री मोहम्मद खां मंसूरी	संचालक
5.	श्री शारुख खान पिता शरीक खां	संचालक
6.	श्रीमती शीलाबाई पति श्री बजरंगलाल सोनी	संचालक
7.	श्रीमती पप्पीबाई पति श्री फूलचंद	संचालक
8.	श्री प्रकाशसिंह पिता श्री देवनारायणसिंह	संचालक
9.	श्रीमती रुकसाना बानो पति श्री नजरमोहम्मद	संचालक
10.	श्रीमती रुकसाना बानो पति श्री आजाद खां	संचालक

संस्था को निर्देशित किया जाता है कि नामांकित प्रबंधकारिणी कमेटी नियमानुसार तीन माह में निर्वाचन पूर्ण करावें।

यह आदेश आज दिनांक 21 अगस्त, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(G-2320)

मुकेश कुमार जैन, उप पंजीयक।

इसे वेबसाइट [www.govtprint.nic.in](http://www.govtprint.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 10, शक 1945

### भाग 3 (2)

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)